



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2019, शनिवार/भाद्र 24—भाद्र 30, 1941

No. 29] NEW DELHI, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2019, SATURDAY/BHADRA 24—BHADRA 30, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

**का.नि.आ. 83 .—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे (ग्राउण्ड्समैन) भर्ती नियम, 1978 एवं सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे (केस वर्कर) भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा महानिदेशालय, पुणे के अधीन सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय में ग्राउण्ड्समैन और केस वर्कर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, ग्राउण्ड्समैन और केस वर्कर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रव्रत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान .—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार कि यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) ग्राउण्ड्समैन	4* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होगा	18 से 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं । <b>टिप्पण (i):-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । ) <b>टिप्पण (ii):-</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित

					करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति :</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी शैक्षणिक संस्था या खेल क्लब में ग्राउण्ड्समैन या मार्कर में कम से कम एक वर्ष का पूर्व अनुभव। <b>टिप्पण :-</b> अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएँ) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. कमांडेंट सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे – अध्यक्ष, 2. ब्रिगेडियर प्रशासनिक भारसाधक, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे – सदस्य 3. एक अधिकारी विभाग का बाहरी व्यक्ति, जो कैप्टन/मेजर रैंक से नीचे का न हो – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) केस वर्कर	2* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500 - 81000)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और

					<p>अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण (i):-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।</p> <p><b>टिप्पण (ii):-</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से आनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से समाजकार्य में कम से कम एक वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने का डिप्लोमा प्राप्त किया हो।</p> <p>या</p> <p>स्नातक, जिसने वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र लिया हो।</p> <p>(ii) समाज सेवा के कार्य में या सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य कल्याण समस्याओं से संबन्धित सांख्यिकीय विश्लेषण कार्य के सर्वेक्षण का एक वर्ष का अनुभव।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	<p><b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कमांडेंट सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे – अध्यक्ष,</li> <li>ब्रिगेडियर प्रशासनिक भारसाधक, सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे – सदस्य</li> <li>एक अधिकारी विभाग का वाहरी व्यक्ति, जो कैप्टन/मेजर रैंक से नीचे का न हो – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता

[फा.सं. 3014/आर आर/ ग्राउण्ड्समैन/केस वर्कर/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/259/आर आर/(नियुक्तियां)/2019]

विश्वजीत गुहा, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 17th September, 2019

**S.R.O. 83.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Armed Forces Medical College, Pune (Groundsman) Recruitment Rules, 1978 and the Armed Forces Medical College, Pune (Case Worker) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Groundsman and Case Worker, in the Armed Forces Medical College, Pune under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Armed Forces Medical College, Pune, Groundsman and Case Worker(Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment for the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Groundsman	4* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> (i) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,

					<p>Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>(ii) In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) 10<sup>th</sup> Class pass from a recognised Board.</p> <p>(ii) Previous experience of a Groundsman or Marker in an educational institution or sports club, for at least one year.</p> <p><b>Note:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of the selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <p>1. Commandant Armed Forces Medical College, Pune - Chairman;</p> <p>2. Brigadier in-charge Administration, Armed Forces Medical College, Pune - Member;</p> <p>3. One Officer from outside the Department, not below the rank of Major/Captain - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Case Worker.	2*(2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs 25500 - 81100).	Not applicable.	<p>Between 18 and 27 years.</p> <p><b>Note:</b> (Relaxable for departmental candidates upto forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes</p>

					<p>or the Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note :</b></p> <p>(i) The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> <p>(ii) In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) 12<sup>th</sup> class pass with a Diploma from recognized Board or institute, after undergoing a course of at least one year's duration in social work.</p> <p>or</p> <p>A graduate with Sociology as an optional subject from recognized University.</p> <p>(ii) One year's experience in social service work or in connection with statistical analysis survey connected with socio-economic health welfare problem.</p>	Not applicable	Two years	By direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Commandant Armed Forces Medical College, Pune - Chairman;</li> <li>2. Brigadier in-charge Administration, Armed Forces Medical College, Pune - Member;</li> <li>3. One Officer from outside the Department, not below the rank of Major/Captain - Member.</li> </ol>	Not applicable.

[ F. No. 3014/RR/Groundsman/Case Worker/DGAFMS/DG-2B/259/RR/D(Appts)/2019 ]

BISWAJIT GUHA, Under Secy.

**(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)**

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

**का.नि.आ. 84.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, में वरिष्ठ सुरक्षा सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वरिष्ठ सुरक्षा सहायक समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद का नाम, संख्या और उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों में उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हरता**— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक	30* (2019) *कार्य भारके आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ख'), अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति व्यक्ति और पुनर्नियोजित होने वाले सशस्त्र सेना के कार्मिकों के लिए दो वर्ष	67 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा 33 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित /सशस्त्र सेना के कार्मिकों का पुनर्नियोजन।



प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	---	---

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात ऐसे सुरक्षा सहायक 'ग' जिन्होंने उस श्रेणी के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>नोट 2:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित है):-</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा कानूनी अथवा स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारी ;</p> <p><b>(क)</b>(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य में स्तर-5 (29200-92300) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दी गई श्रेणी में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो; और</p> <p><b>(ख)</b> निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो अर्थात:-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री; और</p> <p>(ii) किसी केंद्रीय सरकार अथवा</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-</b></p> <p>(क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला अग्नि, पर्यावरण और विस्फोटक सुरक्षा केंद्र, के निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>(ख) भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी, जो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो – सदस्य</p> <p>(ग) एक ऐसा अधिकारी, जो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के स्थापनाओं और प्रयोगशालाओं के किसी घटक से संबंधित न हो – सदस्य</p> <p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>(क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का पर्यावरण अग्नि, पर्यावरण तथा विस्फोटक सुरक्षा केंद्र, दिल्ली के निदेशक – अध्यक्ष</p> <p>(ख) भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से नामनिर्दिष्ट दो अधिकारी, जो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो – सदस्य</p> <p>(ग) एक ऐसा अधिकारी, जो वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के स्थापनाओं और प्रयोगशालाओं के किसी घटक से संबंधित न हो – सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>राज्य सरकार अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में सुरक्षा या अग्निशमन कार्य में दो वर्षों का अनुभव ।</p> <p><b>वांछनीय:</b> सुरक्षा या अग्निशमन कार्य में प्रशिक्षण ।</p> <p><b>पुनर्नियोजन (सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए)।</b> वेतन मैट्रिक्स में सेना, नौसेना और वायु सेना में स्तर-05 (29200-92300 रु.) में हवलदार या समतुल्य जो सेवानिवृत्त होने या एक वर्ष की अवधि के भीतर स्थानांतरित होने की पंक्ति में हैं और जिनके पास शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है उनकी प्रतिनियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा । यदि चयनित हो जाते हैं ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनो पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । ऐसे पात्र व्यक्तियों की दशा में जो पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले हैं रीजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी । (सिविल पद के संदर्भ में सेवानिवृत्ति की आयु तक पुनर्नियोजन)</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे ।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि संविदा सहित) में एक अन्य पूर्व कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पावधि अनुबंध सहित) केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
---	--	--

[फा. सं. मासंविनि/87661/सुरक्षा अधिकारी/आरआर/सी/पी/02/1408/रक्षा(अनु एवं वि)/2019]

हर्षा रानी, अवर सचिव

**(Defence Research and Development Department)**

New Delhi, the 17th September, 2019

**S.R.O. 84.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is hereby makes the following rules regulating the method of recruitment relating to the post of Senior Security Assistant in the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Security Assistant, Group 'B' post Recruitment Rules, 2019.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of the posts, Classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, their classification and the Pay Level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said schedule.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

**5. Disqualifications.**— No person,

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification of the post	level in the Pay Matrix	Selection post or Non Selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Security Assistant	30* (2019)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 Rs.35400-112400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	two years for promotees and re-employed armed force personnel.	67 percent by promotion failing which by deputation including short term contract. 33percent by deputation (including short term contract/ re-employment of armed forces personnel.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Security Assistant 'C' in Level-5 in the pay matrix Rs.29200-92300 with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (including short term contract):-</b> Officers under the Central Government or State Governments or Union territories administration or Public Sector Undertakings or recognized Research Institution or Universities or Statutory or Autonomous Organization;</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) With Six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Level-5 in the pay matrix Rs.29200-92300 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following education qualification and experience:-</p> <p>(i) Degree from a recognized University; and</p> <p>(ii) Two years experience in Security or Fire Fighting duties in a Central Government or State Government Organization or Public Sector Undertaking or Autonomous Body.</p> <p><b>Desirable:</b> Training in Security or Fire Fighting duties. Re-employment (for armed force personnel). Armed forces personnel in the rank of Havaldar or equivalent in Army, Navy and Air Force in level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix who are due</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion consisting of) :</b></p> <p>(a) Director, Centre for Fire, Explosives and Environment Safety(CFEES), Defence Research and Development Organization -Chairman;</p> <p>(b) Two Officers not below the rank of Senior Security Officer or equivalent officer to be nominated from any of the participating Laboratories or Establishments -Members;</p> <p>(c) An officer not below the rank of Chief Security Officer or Scientists 'C' or equivalent officer who does not belong to any of the constituent Establishments(s)/ Laboratories of Defence Research and Development Organization -Member.</p> <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation consisting of):</b></p> <p>(a) Director, Centre for Fire, Explosives and Environment Safety(CFEES), Defence Research and Development Organisation -Chairman;</p> <p>(b) Two Officers not below the rank of Senior Security Officer or equivalent officer to be nominated from any of the participating Laboratories or Establishments -Members</p> <p>(c) An officer not below the rank of Chief Security Officer or Scientists 'C' or equivalent officer who does not belong to any of the constituent Establishments(s)/Laboratories of Defence Research and Development Organization -Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience prescribed for deputation shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces; thereafter they may be continued on re-employment terms in case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis.</p> <p>(Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts)</p> <p><b>Note: 1</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note: 2</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[ F. No.DHRD/87661/SECURITY OFFICER/RRs/C/P/02/1408/D(R&amp;D)/2019]

HARSHA RANI, Under Secy.